



# एक भारत श्रेष्ठ भारत

## Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

### 31. Do you exercise every day?

<b>ASSAMESE</b>	আপুনি সদায় কচৰৎ কৰেনে?	Aapuni sodai kosorot korene?
<b>BENGALI</b>	আপনি কি রোজ ব্যায়াম করেন?	Aapni ki roz byayam koren?
<b>BODO</b>	नोंथांडा जेब्लायबो खसरत खालामो ना ?	Nwngthanga jayblaibw kosorot kalamw na?
<b>DOGRI</b>	केह भला तुस रोजाना कसरत करदे ओ?	Keh bhala tus rojaanaa kasarata karade o?
<b>GUJARATI</b>	શું તમે દરરોજ કસરત કરો છો?	Shu tame darroj kasrata karo chho?
<b>HINDI</b>	क्या आप रोजाना व्यायाम करते हैं?	Kya aap rozana vyaayaam karte hain?
<b>KANNADA</b>	ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?	Neevu pratidina vyayama maadutteera?
<b>KASHMIRI</b>	توی چھوا پڑتھ دوپہہ ورزش کران؟	Tuih chewa prath doah warzish karan?
<b>KONKANI</b>	तूं दिसपट्टो व्यायाम करता?	Tum dispatto vyaayaam kartaa?
<b>MAITHILI</b>	की अहाँ प्रतिदिन व्यायाम करैत छी?	Ki ahan pratidin vyayam karait chi?
<b>MALAYALAM</b>	നിങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യാറുണ്ടോ?	Ningal ellaa divasavum vyaayaamam cheyyaarundo?
<b>MANIPURI</b>	অদোম নুমিৎ খুদিংগী শাজেল শান্নরবা ?	Adom numit khuding gi sajel toubara?
<b>MARATHI</b>	तुम्ही दररोज व्यायाम करता का?	Tumhi darroj vyaayaam kartaa kaa?
<b>NEPALI</b>	के तपाईं दिनहुँ व्यायाम गर्नुहुन्छ?	Ke tapai dinahu vyawam garnu huncha?

<b>ODIA</b>	ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ କି?	Apana pratidina byayama karanti ki?
<b>PUNJABI</b>	ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?	Ki tusi har roz kasrat karde ho?
<b>SANSKRIT</b>	भवान् प्रतिदिनं व्यायामं करोति किम् ?	Bhavaan pratidinan vyaayaaman karoti kim?
<b>SANTALI</b>	चित् आम् दो रोज दहलोक एक्सरसाईज दा?	Chit' aam do roj holik exercise da?
<b>SINDHI</b>	چا توهان هرروز ڪثرت ڪندا آهيو؟	Chhaa tawhan har roz kasrat kandaa aahiyo?
<b>TAMIL</b>	தினமும் நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்களா ?	Thinamum neengal udarpayirchi seikireergala?
<b>TELUGU</b>	మీరు ప్రతి రోజు వ్యాయామం చేస్తారా?	Mīru prati rōjū vyāyāmaṁ cēstārā?
<b>URDU</b>	کیا آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں؟	Kya aap rozana warzish karte hain?